

कार्यालय नगर पंचायत बनबसा चम्पावत।

पत्राक-

/कार्य आ0/2019-20

दिनांक-

/11/2019

कार्यादेश

एवरी यू0एल0बी0 टेक्नोलॉजी.
प्रा0लि0 देहशदन।

विषय- भारत मिशन सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत पंचायत भूमि पर शहर में इसके सभी घटको का समावेश करते ट्रेचिंग ग्राउण्ड की डी0पी0आर0 तैयार करने के सम्बन्ध।

आप द्वारा दिनांक 13-11-2019 को नगर पंचायत बनबसा में भारत मिशन सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत पंचायत भूमि पर शहर में इसके सभी घटको का समावेश करते ट्रेचिंग ग्राउण्ड की डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु दी गई निविदा न्यूनतम होने के कारण अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष महोदया द्वारा स्वीकृत कर ली गयी है।

अतः आप इस आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध कर अवर अभियन्ता नगर पंचायत बनबसा से सम्पर्क स्थापित करने के उपरान्त यथा शीघ्र नगर पंचायत बनबसा में भारत मिशन सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत पंचायत भूमि पर शहर में इसके सभी घटको का समावेश करते ट्रेचिंग ग्राउण्ड की डी0पी0आर0 तैयार करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

K. Singh
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत बनबसा
चम्पावत।

प्रतिलिपि:- 1- अध्यक्ष महोदय नगर पंचायत बनबसा को सूचनार्थ प्रेषित।


Received.
Signature Petri

K. Singh
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत
बनबसा (चम्पावत)

K. Singh
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत बनबसा
चम्पावत।



everyULB



Draft DPR Solid Waste Management – Tanakpur, Cluster(Tanakpur and Banbasa), Uttarakhand

अधिशोषा अधिकारी
नगर पंचायत
बनबसा (धम्पावत)

Project Financial Cost: 623.6 Lakhs

Under Swachh Bharat Mission - Urban

Prepared by EveryULB Technologies Pvt. Ltd.

अधिशोषा अधिकारी
नगर पंचायत
बनबसा (धम्पावत)

अवर अभियन्ता
नगर पंचायत, बनबसा

अवर अभियन्ता
नगर पंचायत, बनबसा

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Table of Contents

PROJECT TECHNICAL SUMMARY

PROJECT FINANCIALS

CHAPTER 1: PROJECT OBJECTIVE

1.1 scope of study: 17

1.2 Objective versus proposed system: 18

1.3 Description of the environment: 19

CHAPTER 2: Profile of the ULB

2.1 Population trend 21

2.2 Description of the environment: 42

CHAPTER 3: Current System & Waste Analysis

3.1 Current system: 42

3.2 Stakeholders feedback & study of system: 46

3.3 Waste Analysis: 53

3.4 System Gaps 55

Chapter 4: Solid waste Management plan

4.1 Waste management plan: 59

4.2 Source segregation of waste 62

4.2 Storage of Waste 64

4.3 Collection system 67

4.4 Personal Protective Equipment: 74

4.5 Operational & Maintenance cost for collection & transportation system: 76

Chapter 5: Processing site & disposal plan


5.1 Tipping shed & material segregation: 80


5.2: Processing of Organic waste 80


5.2.1 Box composting: 80

Step 1: Incoming waste weighing 80

Step - 2 Sorting of Incoming waste 80


अधिशंकर अधिकारी
नगर पंचायत,
बनबसा (नम्यापत)


अनुराग अभियन्ता
नगर पंचायत, बनबसा


अनुराग अभियन्ता
नगर पंचायत, बनबसा

Step 3: Right mixing	
Step 5: Composting (30-45 days)	
Step 5 Maturation of compost	
Step 6: Screening	
Step 7 & 8: Storage & Bagging	
5.3 Processing of Dry waste	
4.4 Reclamation of dumpsite	81
5.4 Design of sanitary landfill	
5.4.1 Design of Leachate Holding tank:	103
5.4.2 During closure and Post closure monitoring plan	105
5.5 Capital expenditure for materials and machinery	121
5.6 Operational Expenditure For Processing & disposal system:	123
5.7 Detailed BOQ and estimation for development of processing and disposal site	125
CHAPTER 6: Environmental Sustainability & MANAGEMENT PLAN	256
6.1 Air environment	259
6.2 Odour	260
6.3 Noise Environment:	261
6.4 Water Environment:	261
6.5 Land Environment:	263
6.6 Environmental Monitoring plan:	263
6.7 Socio- Economic:	264
6.8 Health Aspects of sanitary Workers:	264
6.9 Cost Estimates:	265
CHAPTER 7: INFORMATION, EDUCATION & COMMUNICATION	267
7.1 The Waste Management Hierarchy and the 3R Concept	268
7.2 ULB's efforts towards IEC & awareness programmes	270


[Signature]
अधिकांशी अधिकारी
नगर पंचायत
बनबसा (बनबसा)


[Signature]
अधिकांशी अधिकारी
नगर पंचायत
बनबसा (बनबसा)


[Signature]
अवर अभियन्ता
नगर पंचायत, बनबसा


[Signature]
अवर अभियन्ता
नगर पंचायत, बनबसा

Chapter 8: Project financial and implementation plan	276
8.1 Summary of capital expenditure & operational expenditure for Tanakpur:.....	276
8.2 Expected Revenue	278
8.3 Project structure & stakeholder's responsibility:	279


अधिसूची अधिकारी
नगर पंचायत
बनबसा (चम्पावत)


प्रधिसूची
नगर पंचायत
बनबसा (चम्पावत)


अवर अभियन्ता
नगर पंचायत, बनबसा


अध्यक्ष
नगर पंचायत, बनबसा
चम्पावत

EXECUTIVE SUMMARY

PROJECT TECHNICAL SUMMARY:

<ul style="list-style-type: none"> Gadarpur Cluster Population (2011): - 27,507 Design Population (2039): - 46,596 Current Daily Floating Population: - 2000-3000 (Peak) Current Solid waste Generation (2019): - 11 MTPD Projected generation (2039): - 20 MTPD 	
Current Solid Waste Management System	
Tanakpur	Banabasa
Administration	
<p>The ULB is headed by Executive officer and Chairman are responsible for all activities of collection, street sweeping, transportation, and disposal of solid waste. The Engineering Department is responsible for procurement and maintenance of equipment and vehicles. For operational purposes, the entire area of the ULB is divided into several wards.</p>	
Waste Generation	
<p>ULB estimates that the 26182 population of the city, currently generate about 8.4 MT/day of waste at a daily per capita generation of 300 grams.</p>	<p>ULB estimates that the 6779 population of the city currently generate about 2.3 MT/day of waste at a daily per capita generation of 300 grams.</p>
Storage of waste at source	
<p>Observed during the field surveys that about 90% of households store waste and segregation into organic and inorganic waste</p>	<p>Observed during the field surveys that about 100% of households store waste and segregation into organic and inorganic</p>

अधिकाारी
नगर पंचायत
बनबसा (चम्पावत)

अध्यक्ष
नगर पंचायत, बनबसा
चम्पावत

अवर अभियन्ता
नगर पंचायत, बनबसा

अधिकाारी
नगर पंचायत

is performed at DTD collection.	waste is generally absent.
Waste collection & street sweeping	
<p>The sweepers work in morning shift from 0630 hours and 1230 hours. Depending on demand, Safai Nayak modifies the schedule and deputes sweepers to other roads that are not attended regularly. The sweepers use long-handled brooms and baskets to sweep and collect the waste in small heaps. Handcart collection crew further collects the waste in box type containers, handcarts or wheelbarrows and transfers the waste to secondary storage. Thus, the ULB has a two-tier system of sweeping and multiple handling of waste. In some parts of the town, secondary collection vehicles go along with collection crew and collect the waste and transport the waste to the disposal site.</p>	
Manpower deployed	
<p>Total: 55 Sweepers: 32 Drivers: 7 Supervisor: 6</p>	<p>Total: 25 Sweepers: 18 Drivers: 4 Supervisor: 3</p>
Drain Cleaning	
<p>Gadarpur has about 55 km of drains along NPP and PWD roads. No regular drain cleaning is carried out in most parts of the City. Drains are cleaned whenever there is a block or as demanded by public.</p>	<p>Bazpur has about 28 km of drains along NPP and PWD roads. No regular drain cleaning is carried out in most parts of the City. Drains are cleaned whenever there is a block or as demanded by public.</p>
Collection and transportation	
<p>Collection and transportation of waste from open primary collection points to the disposal site is termed as a primary collection system. There is no transfer station or Trenching ground in all the 4 ULBs. The waste collected from each household is directly transferred to</p>	

अधिशारी अधिकारी
नगर पंचायत
बनबसा (चम्पावत)

अवर अभियन्ता
नगर पंचायत, बनबसा नगर पंचायत, बनबसा
चम्पावत

अधिशारी अधिकारी
नगर पंचायत
बनबसा (चम्पावत)